



सुरक्षित रूप से स्कूल आना-जाना

ट्रैफिक कम करना और सुरक्षा में सुधार करना हर किसी की जिम्मेदारी है

क्या हम स्कूल ट्रैफिक को कम कर सकते हैं?

हाँ! सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों का डिज़ाइन किया जाता है परन्तु व्यस्त समयों के दौरान सभी को पार्किंग स्थान उपलब्ध कराना संभव नहीं है। निम्नलिखित काम करके आप अधिक सुरक्षित सड़कों और ट्रैफिक जाम कम करने में योगदान दे सकते हैं।



पैदल या साइकिल पर स्कूल आना-जाना

एक्टिव ट्रेवल सड़क पर ट्रैफिक जाम कम करने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है।



आधे रास्ते पैदल चलकर जाएँ

स्कूल से कुछ गलियाँ दूर गाड़ी खड़ी करने और वहाँ से पैदल स्कूल आने-जाने की योजना बनाएँ। इस समय का प्रयोग अपने बच्चे को सड़क सुरक्षा के बारे में सीखाने के लिए करें।



यू-टर्न लेने से बचें

ट्रैफिक को सुरक्षात्मक ढंग से आगे बढ़ते रहने देने के लिए यू-टर्न, थ्री-प्वाइंट टर्न, और अन्य पेचीदा मोड़ों का प्रयोग करने से बचें।

2 मिनट

पिक-अप और ड्राप-ऑफ (pick-up and drop-off) (PUDO) ज़ोन का सही ढंग से प्रयोग करें

PUDO ज़ोन 2-मिनट का प्रतीक्षा ज़ोन है जिसका प्रयोग आप आसानी से अपने बच्चे को पिक-अप और ड्राप-ऑफ करने के लिए कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में रहना और आगे बढ़ते रहना याद रखें!



कारपूल करने की व्यवस्था करें

किसी मित्र के साथ कारपूलिंग करने से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होती है और यह मिलकर जिम्मेदारी लेने का एक बढ़िया तरीका है।

याद रखें...

- हमेशा सड़कों और पार्किंग के नियमों का अनुपालन करें, इससे ट्रैफिक के बेहतर प्रवाह में मदद मिलती है और हर कोई सुरक्षित रहता है
- यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गति धीमी करें और पैदल चलने वालों पर नज़र रखें
- यदि आप पदयात्री हैं, तो सतर्क रहें और ध्यानपूर्वक सड़क पार करें

और अधिक जानकारी के लिए, QR कोड स्कैन करें या vicroads.vic.gov.au/safety-and-road-rules/road-safety-education पर जाएँ

